

Date: June 9, 2021

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai - 400 051
Email: emerge@nse.co.in

Symbol: - FOURTHDIM

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect of Intimation of Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company through Video Conference (VC)/other audio visual means (OAVM)

With reference to the above subject, and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose the copies of advertisement published in newspapers in respect of Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company through Video Conference (VC)/other audio visual means (OAVM).

The newspaper advertisement published in following newspaper

- English National Daily Newspaper- "Financial express" (New Delhi Edition) dated 9th June, 2021
- Hindi (Vernacular) daily Newspaper- "Jansatta" (New Delhi Edition) dated 9th June, 2021

Please take the above information on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Fourth Dimension Solutions Limited


Ashish Thakur
Company Secretary

Encl: As above



FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED

CIN:L72900DL2011PLC221111

Regd Office: Bungalow no. BP-13, Top Floor West Patel Nagar New Delhi -110008,
Contact: 079-26566588 | E-mail: secretarial.fdsl@gmail.com | Website: www.fdsindia.in

Branch Address:
Guru Kripa Complex, Vill: Baljodpur Sector 135
Noida Gautam Budha Nagar UP India Pin-201304

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged to the following Gold loan accounts, with the under mentioned terms of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 24/09/2021 as shown below:

Federal Bank Ltd/Baljodpur

Guru Kripa Complex, Vill: Baljodpur Sector 135 Noida
Gautam Budha Nagar UP India Pin-201304

Place: Baljodpur Noida
Date: 09.06.2021



YOUR PERFECT BANK PARTNER
Read Office Address: Kerala

DINESH KUMAR TIWARI
2224640002989

Branch Manager
The Federal Bank Ltd

Bidder address:
 Guru Kripa Cement Vill. Bajpolder Sector 135
 Noida Gautam Buddha Nagar UP India Pin-201304

FEDERAL BANK
 YOUR PERFECT BANKING PARTNER
 Plot 10, Sector 14, Gurgaon, Haryana, Karna

NOTICE FOR PRIVATE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 24/06/2021 as shown below:

<p>Federal Bank Ltd/Bajpolder Guru Kripa Cement Vill. Bajpolder Sector 135 Noida Gautam Buddha Nagar UP India Pin-201304</p>	<p>Raj Kumar Bhat 22246440000309 Raj Kumar Bhat 22246440000323</p>
---	---

Place: Bajpolder Noida
Date: 09.06.2021

Branch Manager
The Federal Bank Ltd

INDIAN RAILWAYS

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)

(RAILWAY BOARD)

No. 2021/RS(WTA)-149/Deve.Tendering/516 New Delhi, dated: 08.06.2021

Developmental E-Tender (Indigenous) No: WTA-516

opening on 05.07.2021 for procurement of 2000 nos.
BOX N / BG Axle (22.9 Tonne Axle Load)

Electronic bids are invited for and on behalf of the President of India for procurement of 2000 nos. BOX N / BG Axle (22.9 Tonne Axle Load). The interested bidders are advised to visit the website <http://tenders.gov.in> for further details, downloading of the tender documents and submission of bids.

Branch Address - Federal Bank
 Branch Address 23, N.P.A. Estate
 M/G Mang, Prayag/21001

THE FEDERAL BANK LTD.
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
 REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branch of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be sold in the branch on or after 24.05.2012 at such a price as may be determined by the Bank.

Sl. No.	Slendera Kumar - 19302000000000000000	Slendera Kumar - 19302000000000000000
2	Slendera Kumar - 19302000000000000000	Slendera Kumar - 19302000000000000000
3	Slendera Kumar - 19302000000000000000	Sadey Sibi Pandi -
4	Slendera Kumar - 19302000000000000000	Branch Manager

Place: Prayag
 Date: 09.06.2021

The Federal Bank Ltd.


PXII
 Power Exchange India Limited
 Sumner Plaza, Unit No.901,5th floor, Marol Maroshi Road,
 Andheri East, Mumbai - 400 059, India.
 Tel : +91 22 40069696 Fax : 91 22 40069693
 Email: info@pxii.co.in, CMCN+U4900M+I200BPLC179152
Trading Month May 2021

	DAS		INTRADAY		ANYDAY		OTTM ANYDAY NOT	
Markets	Prices (Rs./kWh)	Volume (kWh)	Prices (Rs./kWh)	Volume (kWh)	Prices (Rs./kWh)	Volume (kWh)	Prices (Rs./kWh)	Volume (kWh)
Mined	2.50	0.01	2.11	0.06	2.19	6.25	3.00	
Therms	4.41	0.79	3.50	11.79	4.95	15.52	3.00	
Total	2.94	0.80	2.55	11.85	3.63	21.77	3.00	
Max			3.32	66.16		350.16		

IMPORTANT

While care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers and Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or other persons acting on an advertisement in

Joint Director, Railway Stores (M)
Ministry of Railways (Railway Board)
Room No.306, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001
E-mail ID - drsm@rb.railnet.gov.in

THE FEDERAL BANK LTD.,
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branch of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated

<div style="text-align: center;"> माहतीर स्ट्रु वॉर स्टोटे SME Branch, Greater Noida, Po Knowledge Park-1, Greater Noida </div>							
POSSESSION NOTICE							
<p>Notice is hereby given under the Securities Act and Registration of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 17 of the Securities Interest (Enforcement) Rules, 2002. The Bank issued the Notice against account and amount due to the borrower, and the borrower received the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned property described herein shall be exercised in pursuance of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against it. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (6) of the said Act, to read the said Section 17(6) of the said Act.</p> <p>The borrower and guarantor in particular and the public in general are hereby notified that the property will be subject to the charge of the bank and its associated entities. Details of the property are as follows:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Borrowers</th> <th>Description of the Movable/Immovable Property</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Borrowers: M/s Baital Communications, and Guarantors: Kunj Bihari Agarwal, Ravinder Agarwal and Anita Agarwal </td> <td> 1) Hypothecation of all present and future current assets of the unit including stocks of Raw Materials, finished goods, semi finished goods, including goods in transit, stores & spares and other movable current assets, receivables, inventory, supply bills/Book Debits. </td> </tr> <tr> <td></td> <td> 2) Immovable Property bearing Area A-516, Plot No. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, New Delhi-110032, Measuring 632 Square Yards in the name of M/s Industrial Plots Development Co. Pvt. Ltd. Sh. Kunj Bihari Agarwal, Sounded By On the North by: Plot No 515, On the South by, Road 60 Mtrs. On the East by, Road 60 Mtrs. On the West by Plot No 517 </td> </tr> </tbody> </table>		Name of the Borrowers	Description of the Movable/Immovable Property	Borrowers: M/s Baital Communications, and Guarantors: Kunj Bihari Agarwal, Ravinder Agarwal and Anita Agarwal	1) Hypothecation of all present and future current assets of the unit including stocks of Raw Materials, finished goods, semi finished goods, including goods in transit, stores & spares and other movable current assets, receivables, inventory, supply bills/Book Debits.		2) Immovable Property bearing Area A-516, Plot No. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, New Delhi-110032, Measuring 632 Square Yards in the name of M/s Industrial Plots Development Co. Pvt. Ltd. Sh. Kunj Bihari Agarwal, Sounded By On the North by: Plot No 515, On the South by, Road 60 Mtrs. On the East by, Road 60 Mtrs. On the West by Plot No 517
Name of the Borrowers	Description of the Movable/Immovable Property						
Borrowers: M/s Baital Communications, and Guarantors: Kunj Bihari Agarwal, Ravinder Agarwal and Anita Agarwal	1) Hypothecation of all present and future current assets of the unit including stocks of Raw Materials, finished goods, semi finished goods, including goods in transit, stores & spares and other movable current assets, receivables, inventory, supply bills/Book Debits.						
	2) Immovable Property bearing Area A-516, Plot No. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, New Delhi-110032, Measuring 632 Square Yards in the name of M/s Industrial Plots Development Co. Pvt. Ltd. Sh. Kunj Bihari Agarwal, Sounded By On the North by: Plot No 515, On the South by, Road 60 Mtrs. On the East by, Road 60 Mtrs. On the West by Plot No 517						

[illegible]

	Quarter Ended		Financial Year Ended	
	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
Ordinary items)	29.91	16.71	53.31	55.07
Income tax expense (after tax) (after tax)	-655.74	-1.76	-652.95	-5.67
Income tax expense (after tax) (after tax)	-655.74	-1.76	-652.95	-5.67
Income tax expense (after tax) (after tax)	-526.32	3.96	-530.39	-0.42
Income tax expense (after tax) (after tax)	-526.32	3.96	-530.39	-0.42
Income tax expense (after tax) (after tax)	375.05	375.05	375.05	375.05
Income tax expense (after tax) (after tax)	754.67 (as on 31.03.2021)			
Income tax expense (after tax) (after tax)				
Income tax expense (after tax) (after tax)	-14.03	0.11	-14.14	-0.01
Income tax expense (after tax) (after tax)	-14.03	0.11	-14.14	-0.01

The detailed format of 4th Quarter/year ended Financial Results filed with the of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2009/year ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange of India on the company's website (www.pfi.in).

[illegible]

For All Advertisement Enquiries
Call : 0120-665121

K. M. SUGAR
CIN
Regd. Office: 11, Mo
Email: kmsugar@gmail.com, Website: www.kmsugar.com
Extract of Standalone and Consolidated F

Sd/-
(G. Ramarathnam)
DIRECTOR

AR MILLS LIMITED

L15421UP1971PLC003492
Bhavani, Collector's, Kanpur-208 001 (U.P.)
e-mail Phone: Regd. office: 0512-2310762, Branch office: 0522-4079561

Annual Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021

documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facilities advanced to the Bank, Mrs. Sujia K has created security interest in favour of the Bank by way of mortgage on 06.06.2008 in respect of the following immovable property:

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of Plot bearing No.B-4/5-4, Second Floor with roof tops area addressing 650 SJa Pl under Flat bearing with the common rights of stairs, passage and other facilities of the said Plot No.B-4/5, Part of Kusa, West 109/25/237 allotted at Dilated Estate, No. 1109 known as Dilated Colony in the area of village Jhimti (Talshir) Palsla,Shahdara, Delhi-110099 known with undivided proportionate free hold rights of the land underneath and bounded on the East by Service Lane, West by Road, North by Plot No.B-4/5 and South by Plot No.B-4/3.

[illegible]

<p> NOTED 22/07/19 14 Ring Road, Varanasi, Pin-221005 477 772. con.com on.com </p> <p> 9 read with SEBI (Listing SEBI is hereby the Board of scheduled to day of June, 5 Floor, Fort- New Delhi- consider and REPORT. REPORT AND OF ANNUAL of the are endorsed </p> <p> available on the s i e at may also be of the Stock </p> <p> ge, Mr./ ON LIMITED Sr./ ESH Gupta nging Director </p>	<p> Sl. No. </p> <p> Particulars </p> <p> 31 (U) </p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Total income from operations 2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items) 5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)) 6 Equity share capital (Face value of share Rs.2/- each) 7 Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (not annualised) 8 (a) Basic (Rs.) 9 (b) Diluted (Rs.) <p> Notes: </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results of the Company as per SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The Results are available on the Stock Exchanges website (www.kmvgupta.com). 2. The financial results of the Company has been prepared in accordance with the Accounting Standards/ Rules, 2015 as amended by the Companies generally accepted in India. 3. During being seasonal industry, the performance of the quarter may vary. <p> Date: 08.06.2021 Place: Lucknow </p>
--	---

	Standalone				Consolidated	
	Quarter Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
6,505	21,166	50,725	54,194	50,725	54,271	
724	1,031	3,423	2,801	3,423	2,810	
724	1,031	3,423	2,801	3,423	2,810	
613	749	2,624	1,843	2,624	1,852	
585	755	2,611	1,833	2,611	1,842	
1840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
0.67	0.81	2.85	2.00	2.85	2.01	
0.67	0.81	2.85	2.00	2.85	2.01	

Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021, filed with the Stock Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Statements (www.nseindia.com) and (www.bseindia.com) and the Company's website.

in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies Act, 2013 and Indian Accounting Standards (Amendment) Rules, 2016 and other accounting standards.

may not be representative of the annual performance of the Company.

By Order of the Board
For K M Sugar Mills Ltd.
Aditya Jhunjhunwala
Managing Director

you a sum of Rs 13,02,959/- (Rupees Thirteen Lakh Two Thousand Nine Hundred Ninety Nine Only) plus costs and other charges to be due from jointly and severally among us on 22/04/2012 under your Housing Loan 14573/0000076 with NDL/Annam Vihar branch of the Bank. In view of the default in repayment of the said loan, your name is classified as Non Performing Asset on 30.03.2012, with the classification of RBI.

You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @13.50 % per annum with monthly rests plus penal interest @ 2% per day from 22/04/2012 till the date of payment of the said amount with interest and costs. In case you fail to pay the said amount, we shall exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of sale, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realizing the due amount with any further charges.

It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge the said amount and to take necessary actions as stated above, you shall remain liable to pay to the bank all cost charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance dues with further interest. Your attention is directed to the provisions of section 13 (B) of the Act, in respect of me available, to redeem the secured assets (security properties). This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues.

This notice is issued on 17th day of May 2012 and the same was served on you by dms not received by you and therefore this publication as per the SARFEEs Act.

Dated this 05th Day of June 2012 For The Federal Bank Ltd., Deputy Vice President
(Authorized Officer under SARFEEs Act)

DCM LIMITED

Corporate Identity Number: T746990; 18PR/LCP/000004
Regd. Office: Unit No. 2050 to 2052, 2nd Floor, Phase C, Central Square, 20,
Mansarovar II Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006
Tel: 011-41333781, 011-41333782, 011-41333783, 011-41333784
E-Mail: info@dcmltd.com, Website: www.dcm.in

NOTICE

Notice is hereby given to those equity shareholders of DCM Limited (The Company), whose equity shares are liable to be transferred to demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules).

CARD Division / News
 The Federal Towers, U.G.F., 2nd Floor,
 West Patel Nagar, Delhi-110008

FEDERAL BANK
 YOUR PERFECT BANKING PARTNER

NOTICE US 13 (2) OF SARFASIA ACT, 1928 (hereinafter referred to as Act) **IN 3(1) OF SARFASIA SECURITY (ENFORCEMENT) RULES, 2002.**

1) Mr.Rajat Sharma Son Ashok Sharma, residing at 51/51A, Arzila Apartment, DLF Golf Links, Galleria DLF, Gurgaon-122009

You to your approval borrowed had borrowed from our Bank New Delhi/Sheikh branch branch of New Delhi of Rs.45,30,000, (Rs. Forty Lakh Fifty Thousand Only) and Rs.73,00,000- (Rs. Seventy Three Lakh Only) and after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank.

Towards the security of the aforesaid facilities availed from the Bank, you have pledged security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following vehicle:

DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES

1) Brand New AUDI A6 3TFSI Car, Colour White with Registration No.HR26ND6456, Chassis No.HR26ND6456Y0011009 registered on 05.10.2017 at New Delhi.

2) Brand New AUDI Q7 4TDI QUATTRO Car, Colour Camara White with Registration No.HR26ND6089, Engine No. - CVM016659 Chassis No.HR26ND6456Y0011009 registered on 23.01.2018 in Transport Company Haryana Head Office.

LCRD Division / New Delhi
The Federal Towers, U/G, 2/F, 3rd Floor,
West Patel Nagar, New Delhi-110008
Ph: 011-26100000

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

NOTICE U/S 13 (2) OF SARFESI ACT 2002, hereinafter referred to as Act/ (w/ 13 (2) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

(1) Dr. Rekha Sharma W/O Dr. Rajinder Kumar Sharma
2) Dr. Rajinder Kumar Sharma
Encls: 1000/- Also at: Flat No. M-1, MIG Category First/Plot No. B-1/V-1/2/4/2A/Arkar/Vihar Ghaziabad

1st you as borrower and 2nd you as Co-Borrowers/Guarantors borrowed from the Bank's Naman Vihar branch credit facilities/Housing Loan of Rs.15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakh Thousand Only) after executing necessary security agreements towards the facilities of the aforesaid credit facilities availed from the Bank. Mr.Rekha Sharma created security interest in favour of the Bank by way of mortgage on 26.10.2007 in respect of the following immovable property.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY
All that piece and parcel of Plot No. B-1, First Floor, Back portion with Superficial area of 60.30 Sq. Mtrs. situated at Plot No. B-1/V-1/2/4/2A/Arkar/Vihar Ghaziabad, Pargana, Tehsil and District Ghaziabad, UP bounded on the East by Plot No. B-1/V-1, West by Plot No. B-1, North by 12 mtr width

FORN DISSEMINATION SOLUTIONS LTD.
CNIR 120002001201P(12)C11111 | Phone: 079-86566588

Head Office: Bangalore road No. 89-13, Top Floor West Patel Nagar New Delhi -110006.
Regional Office: Bangalore road No. 89-13, Top Floor West Patel Nagar New Delhi -110006.

NOTICE OF THE 1ST EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE FINANCIAL YEAR 2021 AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given that the 1st Extra Ordinary General Meeting of the Financial Year 2021 of FDS will be held on Tuesday, June 22nd, 2021 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) (ANV) to transact the business set forth in the Notice of the AGM. The agenda items are as follows: To receive the Audited Accounts for the year ended 31st March 2021; To appoint Directors to hold office from 09th April, 2021, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories as on June 08, 2021; To elect one Director to hold office from 09th April, 2021, through electronic mode as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Articles of Association of the Company; To consider and approve the Report of the Statutory Auditor appointed by the MCA/Circular on General Meetings and SEBI Circulars on General Meetings.
2. The Notice of EGM and its Explanatory Statement is available on the website of the company at www.fdsindia.in and on the websites of the Stock Exchange of India (www.sebiindia.com) A copy of the same is also available at the website of Central Depository Services Limited (CDSL) at www.cdsl.co.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, June 18, 2021, shall be eligible to attend and vote at the meeting. The details of the members entitled to attend and vote at the meeting are given in the Notice of Extraordinary general voting system (remote e-voting) of CDSL. All members holding shares in the Company are informed that

The e-votes so submitted in the Notice of the Extraordinary General Meeting will be transacted only through video by electronic means

per Section 144(b) of the Companies Act 2013 read with IEPF Rules, all shares in the Company are not free to be transferred or claimed for unclaimed shares for more than one year after the expiry of the period of 12 months from the date of the last date of the annual general meeting after which the shares have remained unclaimed.

As per the company's record, the amount in respect of following dividends declared by the company during the financial years 2010-11 to 2015-16 has remained unpaid / unclaimed:

Financial Year	Type of dividend	Dividend (%) / Dividend shares (N/for Rs. 10 each)	Dividend amount (Rs.)	Dividend amount (Rs.) (per share) / Dividend shares of Rs. 10 each
2013-14	Final Dividend	15%	1.50	1.50
2014-15	Interim Dividend	15%	1.50	1.50
2014-15	Final Dividend	15%	1.50	1.50
2015-16	Final Dividend	15%	1.50	1.50

The amount of Final Dividend for the financial year 2010-11, 2011-12, Interim and final dividend for the financial years 2012-13 and 2013-14 after the Dividend for Financial year 2013-14 remained unpaid/unclaimed, has already been transferred by the Company to IEPF along with relevant corresponding shares.

The Company has already sent individual notice(s) to those shareholders, at the latest date of the financial year 2015-16, to claim the dividend amount to lying unclaimed for last seven consecutive years, as per table given above, and the corresponding equity shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF Authority. The list of such shareholders including names of such shareholders and their folio no. or CPO/ CDD ID available on Company's website is given below:

Such shareholders can claim their dividend amount by making an application along with the

[illegible]

Notice Pursued by Plot No MM-55 & 52

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as the "secured assets". The undersigned being Authorised Officer of The Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of \$ 9,01,992/- (Rupees Nine Lakh One Thousand Nine Hundred Ninety Two and 00/100) is due from you to the bank on 24.06.2021in the Housing Loan 1451730000747as on 29.05.2021 with NDL/Nirman Vihar branch of the Bank. In view of the delay in repayment, your loan/advance is/are classified as Non-Performing Asset on 31.03.2021, as per the guideline of RBI.

You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @ 14.75 % per annum with effect from 24.06.2021 till 24.06.2021in the Housing Loan 1451730000747the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or otherwise and to realise the secured assets of the secured assets for realising the dues without any further notice to you.

It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's consent. In the event of your failure to discharge your liability and/or initiates remedial actions as stated above, the Bank shall be entitled to take the necessary charge on the secured assets incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice.

It is further informed that, you shall be liable to pay the dues of the secured assets available to redeem the secured assets (security properties) 13 (b) of the Act, in respect of the secured assets, in the event of the secured assets being sold or otherwise disposed off without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues. This notice was issued on 28th day of May 2021 and the same was served on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFESI Act.

For The Federal Bank Ltd. *Prashant Kumar*

[illegible]

following documents on or before September 27, 2021 at the Company's Bank of India New Delhi, 2052, D-Block, Phase -I, Central Sector, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hills Road, Connaught Place, New Delhi-110028. The Company's Transfer Agent (TA) is the Share Transfer Agent Limited of the Company at F-55, First Floor, Okla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 so that their corresponding equity shares shall not become liable to be cancelled as per demat account of EIFF. Authority in compliance with the following Rules:

I. If the name of the shareholder as account holder is printed on the cheque:

- Cancelled cheque is original bearing the name of the shareholder as account holder.

II. If the name of the shareholder as an account holder is not printed on the cheque:

- Cancelled cheque in original;
- Bank attested copy of the first page of the Bank Passbook / Bank Statement showing the names of the accountholders, same bank account number and type along with the name of the first addressee of the account.

The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to EIFF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares in demat form as per demat account of EIFF. The Company shall not be liable for the loss incurred by the depositor by way of corporate action to convert the new share certificate(s) into demat form and transfer in favour of EIFF. Authority. The original share certificate(s) which stand deposited with the Company shall be cancelled and shall not be deemed to be valid for any request. Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred by way of corporate action to transfer of their shares in favour of EIFF. Authority

Subsequent to transfer of equity shares by the Company to demat account of EIFF. Authority, the concerned shareholder can claim the said equity shares and dividend(s) amount from EIFF. Authority in accordance with the procedures and on submission of such documents as prescribed in EIFF. Rules. Shareholder(s) can also refer to the details available on EIFF. Authority's website i.e. www.eiff.org

**For DCM Limited
Sd/-
Vimal Prasad Gupta
Company Secretary & Compliance Officer**

